

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी 2018—माघ 3, शक 1939

नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2018

अधि. क्र. 02-एफ-1-14-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद में वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक के लिए उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

स. क्र.	जिले का नाम	क्र.	नगर परिषद् का नाम	क्र.	नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	झाबुआ	1	नगर परिषद पेटलावाद	1	श्री पारसमल गादिया पिता श्री शांतिलाल गादिया वार्ड 1 थांदला रोड पेटलावाद.
		2	नगर परिषद थांदला	1	श्रीमती माया सोलंकी पति श्री सचिव सोलंकी वार्ड नं. 06 आजाद मार्ग थांदला.
		3	नगर परिषद रानापुर	1	श्री ललित बंधवार पिता श्री बिहारीलाल बंधवार वार्ड 01 एमजी रोड रानापुर.
				2	श्री राजेन्द्र उपाध्याय सरदार मागर रानापुर.
			जिला दतिया		
2	दतिया	1	नगर परिषद बढोनी	1	श्री राजकुमार गोस्वामी पिता श्री सुनूलाल बढोनी जिला दतिया.
				2	श्री संतोष कुशवाह पिता श्री रत्तू कुशवाह वार्ड क्रमांक 3 बढोनी.
		2	नगर परिषद भांडेर	1	श्री जगदीश सर्राफ पिता श्री बृज किशोर सर्राफ भांडेर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		3	नगर परिषद सेवढा	1	श्रीमती सीमा बाथम श्री सुरेश बाथम सेवढा.
3	सतना	1	नगर परिषद चित्रकूट	1	श्री सीताशरण महाराज पिता गुरुश्री 1008 जनदुलारी शरणजी वार्ड नं. 11 जानकी महल.
			<b>जिला सतना</b>		
	सतना	2	नगर परिषद रामपुर बघेलान.	1	श्री रामविश्वास शुक्ला पिता श्री अवधेश प्रसाद शुक्ला वार्ड 4 सगोनी रामपुर बघेलान.
		3	नगर परिषद रामनगर	1	श्री विजय कुमार गुप्ता पिता श्री तीरथ गुप्ता रामनगर.
				2	श्री मृगेन्द्र सिंह पिता श्री भुवनेश्वर सिंह रामनगर.
		4	नगर परिषद नागौद	1	श्री आनंदप्रसाद बाजपेई पिता महेशदत्त बाजपेई वार्ड 10 नागौद.
				2	श्री शीवेन्द्र सिंह श्री चयामन सिंह नागौद.
		5	नगर परिषद विरसिंहपुर	1	माया पाण्डेय पिता श्री विनय पाण्डेय जैतवारा वार्ड 8.
				2	रूद्रदत्त पाण्डेय पिता श्री काशीप्रसाद पाण्डेय सभापुर.
		6	नगर परिषद उचेहरा	1	श्री संतोष ताम्रकार पिता भगवानदास ताम्रकार वार्ड 10 उचेहरा.
				2	श्री निरंजन प्रजापति पिता श्री नत्थूलाल प्रजापति वार्ड 11 उचेहरा.
		7	नगर परिषद अमरपाटन	1	अचला पांडेय पिता अजीत पांडेय कृष्णा कालोनी अमरपाटन.
				2	श्री विजय कुमार सोनी पिता हीरालाल सोनी अमरपाटन.
		8	नगर परिषद कोटर	1	श्री प्रभाकर तिवारी पिता श्री रामकुशल तिवारी कोटर वार्ड नं. 15.
				2	श्री नर्मदा कुशवाहा पिता श्री रामजन कुशवाहा वार्ड नं. 12 कोटर.
		9	नगर परिषद जैतवारा	1	श्री हरीश अग्रवाल पिता श्री सुंदरलाल अग्रवाल जैतवारा.
				2	श्री वाल्मिकी प्रसाद तिवारी पिता श्री गया प्रसाद तिवारी अमिलपुर.
		10	नगर परिषद कोठी	1	श्रीमती गीता उर्फ पुनीत पति श्री प्रमोद अग्रवाल वार्ड 09 कोठी.
				2	श्री विनोद पाठक पिता श्री शुभकरण पाठक वार्ड नं. 13 कोठी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.